



Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur

(State University, Government of M.P.)

Office Phone & Fax: (07682 244442), URL : www.mchhatrasaluniversity.com

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर

(राज्य विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश शासन)

क्रमांक/कुलपति/2020

दिनांक - 28-03-2020

संदेश

आपको विदित है कि आज समूचा विश्व नोवल कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी कोविड-19 के संकट से जूझ रहा है। हमारे प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं वर्तमान में कोविड-19 का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। इससे बचने का एक मात्र तरीका इस वायरस का फैलने की श्रृंखला को तोड़ना है जो सामाजिक दूरी एवं घर में रहकर संभव है।

कोरोना वायरस से बचाव एवं इससे फैल रही तरह-तरह की भ्रामक सूचनाओं एवं भ्रांतियों से बचाव हेतु विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, उनके परिवार तथा आस-पड़ोस के नागरिकों को स्वास्थ्यगत विषयों पर जागरूक करने हेतु आप सब से अनुरोध किया जाता है कि वे गोद लिए गाँवों आंगनबाड़ियों एवं सामाजिक संगठनों से ये अनुरोध करें कि वे हमारे इस सन्देश को आगे 10 व्यक्तियों को अग्रेषित करें और प्रत्येक से ये भी अनुरोध करें कि वे भी इसे आगे 10 व्यक्तियों को भेजें हम इस सामाजिक चैन के माध्यम से समाज के कोने-कोने तक पहुँच सकते हैं।

यह समय हमारी संयमित जीवन शैली, धैर्य एवं जागरूकता की परीक्षा का है। घर में रहकर सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए आप परिवार के साथ समय का सदुपयोग करें। विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाए, स्वाध्याय करें एवं परिवार तथा समाज को जागरूक करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आपसे यह भी अपेक्षा है कि मानवीयता के आयाम को उंचाई प्रदान करते हुए गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग के लोगों की कठिनाइयों के निराकरण में आप सहभागी बनें।

प्रो. टी.आर. थापक
कुलपति,

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड
विश्वविद्यालय छतरपुर (म.प्र.)

सा विद्या या विमुक्तये

छतरपुर (म.प्र.)